



विशेष रिपोर्ट


एनर्जी

(जून 2024)





स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च



स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च

मई में, दोनों तेल बेंचमार्क ने दिसंबर के बाद से अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की, जिसका कारण अमेरिका की उधारी लागत के लंबे समय तक अधिक रहने की संभावना, गाजा युद्धविराम की नई उम्मीदें और मौजूदा मांग संबंधी चिंताएँ थीं। व्यापारियों को चिंता है कि अमेरिका में लंबे समय तक उच्च ब्याज दरें आर्थिक दृष्टिकोण और ऊर्जा की मांग को नुकसान पहुँचाएँगी। उत्पादन के मोर्चे पर, रूस ने कहा कि उसने तकनीकी कारणों से अप्रैल में अपने ओपेक+ उत्पादन कोटा को पार कर लिया। रूसी ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश ने 2024 की पहली तिमाही तक ओपेक+ कोटा से कम उत्पादन बनाए रखा। अप्रैल में अधिक उत्पादन के लिए काफी हद तक कम करने की तकनीकी विशिष्टताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात की मुख्य तेल कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने घोषणा की है कि उसने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। जोखिम प्रीमियम में कमी के नवीनतम संकेतों के कारण पिछले दो महीनों में तेल की कीमतों में 12 प्रतिशत की गिरावट हुई है। कच्चे तेल के लिए झटका कमजोर उभरते बाजारों से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए आधिकारिक चीनी पीएमआई आंकड़ों ने कमी का संकेत दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु से कच्चे तेल के बाजार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने आश्वासन दिया है कि देश के मामलों में कोई व्यवधान नहीं होगा।

आउटलुक

- तेल बाजार की वर्तमान स्थिति भू-राजनीतिक कारकों, प्रमुख उत्पादकों द्वारा उत्पादन निर्णयों और व्यापक आर्थिक नीतियों की परस्पर जटिल क्रिया को दर्शाती है। जैसे-जैसे ये तत्व विकसित होते रहेंगे, तेल वायदा की कीमतों में उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है।
- निवेशकों को चिंता है कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला करने के बाद, दुनिया के प्रमुख तेल उपभोक्ता अमेरिका में लंबे समय तक

उधार लेने की उच्च लागत आर्थिक विकास को रोक देगी।

- इजरायल-हमास युद्धविराम के कारण भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम कम हो सकते हैं क्योंकि दोनों पक्ष अस्थायी युद्धविराम पर विचार कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
- ओपेक+ ने 02 जून को 2024 में अपने गहरे तेल उत्पादन में कटौती को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और उन्हें 2025 तक बढ़ाने पर चर्चा कर रहा है क्योंकि समूह धीमी वैश्विक मांग वृद्धि, उच्च ब्याज दरों और बढ़ते प्रतिद्वंद्वी अमेरिकी उत्पादन के बीच बाजार को मजबूत करना चाहता है।
- ओपेक+ सदस्य वर्तमान में कुल 5.86 मिलियन बैरल प्रति दिन या वैश्विक मांग का लगभग 5.7% उत्पादन में कटौती कर रहे हैं।
- इस कटौती में ओपेक+ सदस्यों द्वारा 2024 के अंत तक वैध 3.66 मिलियन बैरल प्रति दिन और कुछ सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक कटौती के रूप में 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन शामिल हैं, जो जून के अंत में समाप्त हो रही है।
- दिसंबर तक, अतिरिक्त 500,000 बैरल प्रति दिन बाजार में फिर से प्रवेश करने की उम्मीद है, जबकि जून 2025 तक कुल 1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन वापस आने का अनुमान है।
- मांग को दखा जाय तो आंकड़ों ने संकेत दिया कि मई में लगातार दूसरे महीने अमेरिकी मैनुफैक्चरिंग गतिविधि धीमी रही, जबकि गैर-आवासीय गतिविधि में गिरावट के कारण अप्रैल में लगातार दूसरे महीने निर्माण खर्च में अप्रत्याशित रूप से गिरावट आई।
- अमेरिका, चीन और यूरोप जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से लगातार मिल रहे नकारात्मक संकेतों से पता चलता है कि तेल के लिए उनकी मांग वर्ष के बाकी समय में उतनी स्वस्थ नहीं हो सकती जितनी कि उम्मीद की गई थी।
- ओपेक+ शायद एशिया में मांग वृद्धि की स्थिति, जो कि सबसे अधिक खपत वाला क्षेत्र है, तथा इस वर्ष 2.25 मिलियन बैरल प्रति दिन की वैश्विक वृद्धि के लिए इसके पूर्वानुमान के बारे में चिंतित है।

एमसीएक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



नाइमेक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



जून 2024 में, कच्चे तेल की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 5650-6750 के बड़े दायरे में कारोबार कर सकती हैं। उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली से इंकार नहीं किया जा सकता है।

नेचुरल गैस

मई में, नाइमेक्स और एमसीएक्स दोनों पर अप्रैल में 12% से अधिक की वृद्धि के बाद नेचुरल गैस की कीमतों में 30% से अधिक की वृद्धि हुई, जिसका कारण मांग में वृद्धि, और तरलीकृत नेचुरल गैस की निर्यात संयंत्रों में प्रवाह में वृद्धि है। टेक्सास में फ्रीपोर्ट तरलीकृत नेचुरल गैस संयंत्र की वापसी ने भी मई में प्रमुख अमेरिकी तरलीकृत नेचुरल गैस निर्यात संयंत्रों में गैस प्रवाह में वृद्धि में योगदान दिया है। मौसम संबंधी अनुमानों से पता चलता है कि निचले 48 राज्यों में सामान्य से अधिक गर्म मौसम है, जो गैस की मांग में पूर्वानुमानित वृद्धि में योगदान देता है। मई में निचले 48 अमेरिकी राज्यों में गैस उत्पादन अप्रैल में 98.2 बिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन से थोड़ा कम होकर 97.5 बिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन हो गया, लेकिन यह अभी भी दिसंबर 2023 में 105.5 बीसीएफडी के मासिक रिकॉर्ड से नीचे है।

आउटलुक

- निरंतर गर्म मौसम के कारण मजबूत निकट अवधि की मांग के पूर्वानुमान, उत्पादन में गिरावट और यूरोप में संभावित आपूर्ति व्यवधानों के साथ यू.एस. एलएनजी निर्यात की मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नेचुरल गैस की कीमतों के लिए दृष्टिकोण तेजी से बना हुआ है।
- यूरोप में नेचुरल गैस की आपूर्ति फिर से कम हो रही है और यह पता चला है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आदि के सभी विचारों के बावजूद, उन्हें अभी भी यूरोप में नेचुरल गैस की आवश्यकता है। इसके अलावा, रूसी आपूर्ति निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं है।
- मौसम विज्ञानियों ने 19 जून तक निचले 48 राज्यों में सामान्य से अधिक गर्म मौसम का अनुमान लगाया है, जिसमें 9-11 जून तक केवल कुछ ही दिन सामान्य के करीब होंगे। इस बीच, अमेरिकी उपयोगिताओं ने 24 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान 84 बिलियन क्यूबिक फीट गैस को भंडारण में जोड़ा, जो उम्मीदों से अधिक था और मौसमी भंडारण वृद्धि का लगातार आठवां सप्ताह था।
- गैस स्टॉक कुल 2,795 बिलियन क्यूबिक फीट था, जो पिछले वर्ष से 15% और वर्तमान पाँच साल के औसत से 26% अधिक था।
- यूरोप में, आपूर्ति जोखिम कम हो गया क्योंकि शुक्रवार तक एक प्रमुख नॉर्वेजियन पाइपलाइन की मरम्मत होने की उम्मीद है।
- नॉर्वे, जो 2022 में यूरोप का सबसे बड़ा गैस आपूर्तिकर्ता बन गया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में खपत होने वाली सभी नेचुरल गैस का 26% प्रदान करता है। नॉर्वेजियन क्षेत्रों में कोई भी आउटलेज कीमतों को काफी प्रभावित करता है।
- 2024 में अमेरिकी गैस उत्पादन लगभग 8% कम रहेगा, क्योंकि रूज और चेसापीक एनर्जी जैसी कंपनियों ने साल की शुरुआत में 3.5 साल के निचले स्तर पर कीमत गिरने के बाद कुओं के पूरा होने में देरी की है और ड्रिलिंग गतिविधियों को कम कर दिया है।

एमसीएक्स में नेचुरल गैस की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

नाइमेक्स में नेचुरल गैस की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

जून 2024 में एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमतें दोनों दिशाओं में कारोबार कर सकती है, जहां कीमतों को 170 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस 260 के करीब देखा जा रहा है।

प्रतिभूति

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A/Wing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशांसात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जॉबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपालिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉर्पोरेट नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एसएमआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को सुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिलचस्पता: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट समूह/लेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कनेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कनेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विचारों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।